

कोमी पत्रिका

राष्ट्रीय दैनिक अखबार

दिल्ली-हरियाणा-पंजाब-चण्डीगढ़-उत्तर प्रदेश से प्रसारित

शुक्रवार, 27 सितंबर 2024

VISIT:

www.qaumipatrika.in

Email: qpatrika@gmail.com

मानहानि मामले में संजय राउत दोषी करार



बदलते दांव से कांग्रेस-भाजपा में कांटे की टक्कर

नरेश मल्होत्रा

सोनीपत, 26 सितंबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में
मतदान की तिथि अब करीब आ रही है। पांच अक्टूबर
को प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए बोट डाले जाएंगे।
खास बात ये है कि चुनाव प्रचार के बीच मुद्रे लगातार
बदलते जा रहे हैं। कोई भी पार्टी, किसी एक या दो मुद्रों
पर नहीं टिक रही। स्टार प्रचारकों के आने से नए मुद्रों को
खूब मिल रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक़,
अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा
के बीच काटे का मुकाबला होता जा रहा है। उससे पहले
कांग्रेस पार्टी का ग्राफ हाई बताया जा रहा था। भाजपा ने
अब शैलजा फैक्टर और दलित बोट बैंक को जोड़कर
कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की है। साथ ही ये मैसेज
भी आगे बढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस की सत्ता आती है
तो एक समुदाय विशेष का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा।
इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने अब चुनावी रैलियों में
यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में
आई तो चौधर दोबारा से रोहतक में चली जाएंगी
राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा के
आखिरी दिन की खिलाड़ी दांव से अच्छी तरह परिवर्तित
है। पार्टी को मालूम है कि भाजपा, आसानी से हार नहीं
मानती। पिछले सप्ताह तक कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तेजी से
उपर जा रहा था। पार्टी के स्टार प्रचारक एवं पूर्व सीएम

भूपेंद्र हड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र -
जनसभाओं में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल
कह रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के जानकार,
रविंद्र कुमार का कहना है, देखिये चुनाव प्रचारकार
में मुहे हर पल बदल रहे हैं। एक पार्टी कोई
मुझ उतारी है तो दूसरी उसका कांटर करती
है। दोनों दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनाव में
गमर्हात ला दी है। भाजपा, एक साथ से
कुमारी शैलजा के मुद्रे को भुनाने का प्रयास किया
कर रही है। इसे सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर ने हवा दी थी। शैलजा ने
कई दिन बाद खट्टर की बातों का खंडन किया
था। खट्टर ने शैलजा की भाजपा में शामिल
होने की संभावनाओं बाबत बयान दिया था।
इतना ही नहीं, इससे पहले खुद शैलजा ने
मुख्यमंत्री के पद को लेकर अपनी इच्छा जर्ताई
थी। उन्होंने कहा था, कोई दलित चेहरा प्रदेश
का सीएम क्यों नहीं बन सकता। इसके बाद ही
अपने चुनावी प्रचार को एक नई धार दे दी।
दलित बाट बैंक से जोड़ दिया। खुद पीएम मोर्चा
चुनावी रैली में कह दिया कि भाजपा ने वर्चित
समाज को हरियाणा में आगे बढ़ाया है। मोर्चा
ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सेनी को
मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस सरकार, अ

जोर वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। इसके बाद चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो भी व्यक्ति इतने बोट लाएगा, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी पकड़ी पाए जाएगी। इस मुद्दे को खर्ची और पर्ची से जोड़ दिया गया था। इस दिन से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव प्रचार में रहे हैं कि भाजपा ने सरकारी नौकरी के लिए आवधि दी और पर्ची की व्यवस्था बंद कर दी थी। अब वास्तव में इस पार्टी उसे दोबारा से शुरू करना चाहती है। इदं कुमार ने कहा, शैलजा से हाल ही में एक बड़ा गलतकार में पूछा गया कि क्या आप हुड़ी के प्रभावात् रहती हैं। क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करती हैं, शैलजा ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि वे मुझे बुलाएंगे ही नहीं। चुनाव प्रचार के बीच वास्तव में यह बयान एक बार फिर भाजपा के लिए देवा का सौदा बन गया। पार्टी इसे भुना रही है और हुड़ी ने खर्ची और पर्ची के बयान का खंडन किया। कहा, कांग्रेस की सरकार में दो लाख नौकरियां बनायी जाएंगी। आवेदकों की योग्यता के बारे में नौकरियां मिलेंगी। रविंद्र कुमार ने कहा, यहाँ तक कि उन गैर करने लायक है। कांग्रेस पार्टी के प्रचार में बहुत कमी भी नहीं रही है। कहीं न कहीं, उन्हें उन्होंने के मार्फत यह भरोसा मिल रहा है कि कांग्रेस की नौकरी मिल जाएगी।

अब और सुरक्षित होंगे
आधार और पैन के डिटेल
कौमी संवाददाता

नई दिल्ली, 26 सितंबर। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार और पैन के विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। वहाँ राज्य के आईटी सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों और मुआवजे का समाधान करने का अधिकार दिया गया। भारत सरकार एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद, जवाबदेह इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यगिकी मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ वेबसाइट भारतीय नागरिकों के आधार और पैन कार्ड विवरण समेत संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर कर रही हैं। इसे गंभीरता से लिया गया है क्योंकि सरकार सुरक्षित साइबर



सुरक्षा प्रथाओं और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसके अनुरूप, इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार (वित्तीय और अन्य सभ्यता, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 29(4) के तहत आधार जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिवंध के उल्लंघन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (एश्वरक्ष-द्वुत्रु) की तरफ से इन वेबसाइटों के विश्लेषण से पता चला है कि इन वेबसाइटों में कुछ सुरक्षा खामियां हैं। संबंधित वेबसाइट मालिकों को आईसीटी अवसरंचना को मजबूत करने और कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए उनके स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। सीईआरटी-इन ने आईटी एस्लीकेशन का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए सुरक्षित एस्लीकेशन डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीईआरटी-इन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तहत सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा-निर्देश भी दिए हैं। स्फूर्तिहीन ने सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 को अधिसूचित किया है, जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के गैर-प्रकाशन और गैर-प्रकटीकरण का प्रावधान करता है। कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष शिकायत दर्ज करने और मुआवजा मांगने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 46 के तहत निर्णायक अधिकारी से संपर्क कर सकता है। राज्यों के आईटी सचिवों को आईटी अधिनियम के तहत निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिकार दिया गया है।

राम मंदिर में कभी भा न होगा
तिरुपति प्रसाद वितरण जैसी गलती

अयोध्या, 26 सितंबर। तिरुपति के लड्डू प्रसाद में गवंबन की चर्बी मिलने के बाद मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद का लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक दिन पहले अयोध्या के संतों ने बैठक कर अपील की है कि मंदिरों में बाजार से खरीदकर प्रसाद भगवान को अर्पित न किया जाए। इन दिन देश-दुनिया के भक्तों के आकर्षण का केंद्र, राममंदिर का बात करें तो यहां के प्रसाद में मिलावट की कोई संभावना ही नहीं। क्योंकि यहां पहले से ही प्रसाद चढ़ाने पर रोक है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि रामलला को बाहर से कोई प्रसाद अर्पित ही नहीं होता। श्रद्धालु भी मंदिर में खाली हाथ दर्शन करते हैं। श्रद्धालु रामलला को सिर्फ भाव का ही प्रसाद चढ़ाव पाते हैं। श्रद्धालुओं को राममंदिर ट्रस्ट की ओर से इलायची दाना प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। छोटी इलायची और चीनी को मिलाकर इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। बताया कि इलायची दाने के बहुत से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम और तमाम खनिज मिलते हैं। ये पेट के समस्याओं के लिए रामबाण रामबाण औपशिष्ट के रूप में काम करता है। प्रकाश गुप्ता ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना एक लाख भक्त रामलला वे दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इस भीड़ को ध्यान में रखकर सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन परिसर में दर्शनार्थियों के वापसी के रास्ते पर निर्माणाधीन पीफासी के निकट स्थापित की गई। इस मशीन के लगाने से दर्शन के लिए आए सभी श्रद्धालुओं का सुविधाजनक ढंग से प्रसाद मिल पाता है।

नेम
स्वास्थ्य सुर
सौरभ शर्मा

नई दिल्ली, 26 सितंबर। उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने भी अपने राज्य में दुकानदारों के लिए नेम लेटर पर दुकानदारों की पहचान लिखना अनिवार्य किए जाने की बात कही है। अब तक कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसे योगी आदित्यनाथ सरकार की सांप्रदायिक राजनीति बताकर भाजपा को कठघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन एक कांग्रेसी मंत्री के द्वारा इसी तरह की बात किए जाने से पूरा मामला दूसरी तरफ मुड़ गया है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले को लोगों की स्वास्थ्य सुक्ष्म की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस तरह बाजार में लगभग हर वस्तु में मिलावट पाई जा रही है, उसका बड़ा नुकसान हर वर्ग के उपभोक्ता को हो रहा है। इस मिलावट के कारण लोगों को तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसमें जैसी घाटक बीमारी भी शामिल है, लें दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले में उपभोक्ता स्वास्थ्य की कोई चर्चा नहीं की जा रही है औं विवाद दुकानदारों की धार्मिक पहचान ब

A medium shot of a man with dark hair and a well-groomed mustache, wearing a dark grey blazer over a white shirt. He is seated in what appears to be an indoor setting, with a window featuring decorative, diamond-shaped curtains visible behind him. The lighting is soft, coming from the side, creating a professional look. He is looking directly at the camera, suggesting he is addressing an audience.

नहीं, विक्रमादित्य सिमटकर रह गया है। खाद्य मामलों की विशेषज्ञ कोमल वशिष्ठ ने अमर उजाला से कहा कि हमारे देश में कोई व्यक्ति किसी दुकान से सामान खरीदता है तो दुकानदार उसे सभी विकल्प या वेराइटी दिखाकर अपने कर्तव्य की समाप्ति समझ लेता है। यदि सामान खराब निकलता है तो दुकानदार यही कहता है कि उसने उपभोक्ता को सभी विकल्प दिखा दिए थे। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव करना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। कोमल वशिष्ठ ने कहा कि यह सोच परी तरह उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। यदि किसी दुकान पर कोई बच्चा जाता है तो वह भी एक उपभोक्ता है, लेकिन वह किसी वस्तु की सही-गलत वेराइटी के चयन में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसे में दुकानदार को हर उपभोक्ता को सही गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध कराना दुकानदार की बाध्यता होनी चाहिए। बात केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में वस्तुओं की गुणवत्ता की जानकारी रखना और उसे ग्राहक को देना कंपनी बनाने वाली कंपनी के बाद दुकानदारों की ही होती है। कोई दुकानदार अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

जाति-धर्म के नाम पर जनता को भड़का रही भाजपा: हेमंत सोरेन

तेजिन्दर कौर बब्बर

(यूआईडाइआइ) न आधार (वित्ताय आर अन्य साप्तस्ता, लाभ आर सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 29(4) के तहत आधार जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिवर्धं के उल्लंघन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (षष्ठ्रकञ्च-दृढ़ु) की तरफ से इन वेबसाइटों के विश्लेषण से पता चला है कि इन वेबसाइटों में कुछ सुरक्षा खामियां हैं। संबंधित वेबसाइट मालिकों को आईसीटी अवसंरचना को मजबूत करने और कमजोरियों को ठीक करने के लिए उनके स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। सीईआरटी-इन ने आईटी एप्लीकेशन का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए सुरक्षित एप्लीकेशन डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीईआरटी-इन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तहत सूचना सुक्ष्मा प्रथाओं, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा-निर्देश भी दिए हैं। स्फटवे�र ने सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 को अधिसूचित किया है, जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के गैर-प्रकाशन और गैर-प्रकटीकरण का प्रावधान करता है। कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष शिकायत दर्ज करने और मुआवजा मांगने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 46 के तहत निर्णायक अधिकारी से संपर्क कर सकता है। राज्यों के आईटी सचिवों को आईटी अधिनियम के तहत निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिकार दिया गया है।

A close-up photograph of a man with a beard and glasses, wearing a white shirt and a yellow bracelet, gesturing with his hand while speaking. In the background, other people are visible, some in uniform.

मारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और उनकी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया है। हमने कृषि ऋण, बिजली बकाया माफ कर दिया है और 200 यूनिट तक बिजली की खपत मुफ्त कर दी है। उन्होंने भाजपा पर ज्ञामुमो सरकार को दो साल तक परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि जब वे अपने प्रयास में विफल रहे, तो उन्होंने मुझे छूटे आरोपों में सलाखों के पीछे डाल दिया। धनवाद में परिवर्तन रैली के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ज्ञारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद शहीद होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ज्ञारखंड को विकास की ओर नहीं ले जा सकते। इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। उन्होंने कहा कि ज्ञारखंड के विकास के लिए भाजपा को लगातार दो कार्यकाल दें। रक्षा मंत्री ने ज्ञामुमो सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ और वर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने एक ग्राम-एक जनात को लेकर कहा कि हमसे सरकारी खजाने को चार लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, क्योंकि लगातार चुनावों से देश को लगभग सात लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है। राजनाथ सिंह ने विदेश में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आलोचना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्ञारखंड में गुरुवार को एलान किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो किसानों को पांच एकड़ पर प्रति एकड़ पांच हजार की सहायता मिलेगी। साथ ही धन की खरीद 3100 रुपये प्रति क्रिंटल पर की जाएगी। इसके अलावा ज्ञामुमो सरकार की मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता से दोगुनी वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की गई। गुमला जिले के सिसई में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में चौहान ने कहा कि ज्ञारखंड में पिछली भाजपा सरकार किसानों को पांच एकड़ तक के लिए प्रति एकड़ पांच हजार रुपये सालाना देती थी, लेकिन ज्ञामुमो सरकार ने इसे बंद कर दिया। अगर भाजपा राज्य में सत्ता में लौटती है, तो योजना बहाल की जाएगी। चौहान ने कहा कि ज्ञामुमो सरकार ने पांच साल पहले खाना पकाने की लागत के रूप में दो हजार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया।

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सेमसंग संयंत्र में हड्डताल खत्म कराने के लिए लिखा पत्र

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से राज्य में मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्मित करने वाली बहुराष्ट्रीय कर्ननी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्र में जारी श्रमिक हड्डताल शीघ्र समाप्त करने का आग्रह किया।
सैमंग ने आज यह बताया कि केंद्र ग्राम पर्यावरण रोजगार मंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं स्थानिक को सैमसंग के सैमसंग संयंत्र में जारी श्रमिक हड्डताल पर चिंता प्रकट की है और इसके शोषण समाधान का आग्रह किया है। पिछले कई दिनों से करनी के श्रीपरेक्षुदूर में श्रमिक हड्डताल पर हैं, श्री मांविक्या ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सकारात्मक परिवर्तन बनाये रखने हुए संबंधित विवाद का शीघ्र समाधान करने को कहा है। उसने मामले को कुशलता से सुलझाने में सभी प्रकार की सहायता का आशासन दिया है।



दूसू चुनाव में हिंसा फैलाने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे : एनएसयूआई

नदी दिल्ली। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने अपरोप लालाया है कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अधिकारी भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की प्रयाप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव - दूसू में हिंसा फैलाने की कोशिश है जिसे सलाह नहीं होने दिया जाए। एनएसयूआई के शीघ्रता प्रवक्तव्य रखि पाड़े ने कहा कि मिराज बहुत में उनके संगठन के अधिकारियों को विचार करने से रोके और हिंसा फैलाने को जारी रखा देंगे।

एनएसयूआई का महिला विरोधी घटिरा एक बार पुनः सामने आया: करनाल

नदी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (दूसू) चुनाव में अधिकारी भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की सचिव पद की प्रत्याशी मित्रवदा करनाल ने नेशनल स्टैंडर्ड्स विनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) पर हमला बताया कि जिस तरह के एनएसयूआई के गुडे जबरदस्ती मिराज लालस करने के बाद उसका महिला विरोधी छात्र एक बार पुनः सामने आ गया है। सुश्री करनाल ने कहा, जिस प्रकार से भिरांडा हाउस में गेट तोड़क बदलस्तो एनएसयूआई के लोग घुसे हैं, वह दीयू में छात्रों की सुरक्षा की ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा स्थान है। दीयू छात्रों इस तरह के हिंसक तथा शर्मनाक कृत्य का मुंद्रोड़ जबाब देंगे।



यूपीएससी के छात्र दीपक ने आत्महत्या से पहले कुछ मटेरियल सर्च किए : पुलिस

नई दिल्ली। उत्तर परिचयी जिले के मुख्यर्जी नार इताल में यूपीएससी के छात्र दीपक कुमार मीणा की संदिध हालात में लाश मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक अपेक्षित आया है। उत्तर परिचयी जिले के डीसीपी जिले दीपक मीणा ने मीडिया के साड़ा करते हुए बताया कि यूपीएससी के छात्र दीपक कुमार मीणा का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया गया है। जिसकी विविधों की भी जारी रखी गई है। साथ ही जब इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी और उनके फोन की जांच की गई। जांच में दीपक कुमार मीणा के फोन की हस्ट्री में कुछ ऐसा सामने आया है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के प्रयाप की कुछ मटेरियल सर्च किया है। ये विल्हेम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी लैंगिंग यांसी का मामला हो सामने आया है। लोकन दीपक कुमार मीणा को आवश्यकता नहीं हो पाए है। दीपक कुमार मीणा को जिले दीपक कुमार मीणा की जांच करने में लगी हुई है।



Date of Birth Change
I, POOJA DEVI daughter of No. 10135 493X Hav Sureesh Kumar /o/ RZ-430/24, Gali No. 2D, Kallash Puri Extn., Palam Village, South West Delhi-110045, have changed my date of birth from 18.02.1999 to 07.04.1997 for all future purposes. Vide affidavit No. INDL615317307176111 dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

NAME CHANGE
I, hitherto known as RAMAJORE alias DHEERAJ KANOJIA /S/o/ RAMADAS KANOJIA /R/o/ GRAM- RAJAPUR SEKTA, 09 ROHANI, ROHINI, PO/ ROHINI SECTOR-7, DIST: NORTH WEST DELHI, DELHI-110085 have changed my name and shall hereafter be known as DHEERAJ KANOJIA.

NAME CHANGE
I, NO-15426742X Rank-HAV Name-ANAND KUMAR /R/o/ VILL-SIMARA SHEKHUPUR, TEH-KALPI, DIST-JALUAN, U.P-285130 have changed my Minor daughter's name from ANEHA KULSHRESHTHA to ABHA KULSHRESHTHA for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

NAME CHANGE
I Kartik Nayak Sir Surendra Nayak /R/o/ Quarter No. 236, 2nd Floor, Type-2, Nirmal Colony, Delhi Administration Flats, North West Delhi, Delhi-110052 Have Changed the Name of My Minor Daughter Muskan Aged 17 Years and She Shall Hereafter Be Known as Muskan Nayak.

NAME CHANGE
I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE
It is for general information that I MD WASIM Panwaz S/o: Ayshanul, R/O Plot No-348, Kh No-20/24, Block-G, Inder Enclave Ph-2, Kirari Suleman Nagar, PO-Sultupur C Block, DIST-North West Delhi, Delhi, 110086 declare that the name of mine has been wrongly written as Mohammad Wasim Panwaz and Md. Ehsanul Haque in my driving Licence no DL 11 20190008950. The actual name of mine and my father are MD WASIM PANWAZ and AYSHANUL which may be amended accordingly.

NAME CHANGE
I, SHAKTI APRODA RODA RAMESH KUMAR, R/O 2859, AMPLIT PURI -B, GARHI EAST OF KAILASH, NEW DELHI-110065, DECLARE THAT, I HAVE CHANGED MY MINOR DAUGHTER'S NAME FROM ADHYA TO MISHTY, AND ALSO CHANGED HER FATHER NAME, FROM HIMANSHU BALUJA TO MANOJ VERMA, FOR ALL FUTURE PURPOSES.

PUBLIC NOTICE

Be it known to the public at large that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, HINA AAMIR W/O MOHAMMED AAMIR residing at C-23, NIZAMUDIN WEST, DELHI-110013 declare that my name of mine has been wrongly written as HINA AAMIR AAMIR wife of MOHD AAMIR.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No.851A, Patiala House, New Delhi-110001.

NAME CHANGE

I, SULOCHNA mother of NO. 1518361M Rank-HAV Name-MADAN LAL residing at VILL-BHU RANPUR, PO-CHAHUWALI, TEH-TIBBI, DIST-HANUMANGARH, RAJASTHAN-335526 have changed my name from SULOCHNA to SILOCHNA DEV for all future purposes vide affidavit dated 26/09/2024 before Notary Public, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that my client Sh. Deepak Kumar Khatri S/o Ram Kishan Khatri and Manisha W/o Deepak Kumar Khatri R/O A-67, Shyama Colony, Kailali, Ktih, Khurdi, Narela, Delhi-110040 have disowned their daughter Yuvika from all movable and immovable properties. My clients has no concern with their said daughter and will not be responsible for her any act done by her or on her behalf.

SHAKTI MANN ADVOCATE

Chamber No

खोया असली है या नकली 6 आसान ट्रिक्स से चंद मिनटों में घर पर करें मावा की थुक्कता की पहचान



तिरुपति बाला जी मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्चा होने के बाद अब मध्यस्था के बृंदावन में मिलावट वाले पेंडों में भी मिलावट होने की बात सामने आई है। ऐसे में मिलावट में मिलाया जाने वाला खोया असली है या नकली, इस पर लोगों की चिंता बढ़ गई है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में मावा खटीते समय खास तावाहानी बढ़ती है जैसत है, आप पर पर भी असली-नकली खोये की पहचान इन ट्रिक्स से कर सकते हैं।

इन दिनों तिरुपति बाला जी मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्चा से बना थी, मकरी का तेल होने के बाद एस मध्यस्था के बृंदावन में मिलाने वाले प्रसाद के पेंडों में भी मिलावट होने की बात सामने आई है। जब जाच हुई तो पेंडों में स्टार्च मिले होने की बात कही गई। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग के एक टीम ने बृंदावन के कई मिट्टियों के ड्रुकानों में जाकर पेंडों के संगल पर लिए थे। मिट्टियाँ में स्टार्च मिले होने की बात सामने आई है। इन तापमान खट्टों से लोगों की भावानाएं तो आतं हुई ही हैं, माध्य ही अब वे इन मिलावटी प्रसाद, मिट्टियों के सेवन से भी परेह कर रहे हैं।

अक्सर त्योहारों के समय भी मिट्टियों में खेल मिलावट की जाती है। खाद्य, खोया से बनने वाली मिट्टियों में तो खेल होने की बात सामने आई है। इन तापमान खट्टों से लोगों की भावानाएं तो आतं हुई ही हैं, माध्य ही अब वे इन मिलावटी प्रसाद, मिट्टियों के सेवन से भी परेह कर रहे हैं।

अक्सर त्योहारों के समय भी मिट्टियों में खेल मिलावट की जाती है। खाद्य, खोया से बनने वाली मिट्टियों में तो खेल होने की बात सामने आई है। इन तापमान खट्टों से लोगों की भावानाएं तो आतं हुई ही हैं, माध्य ही अब वे इन मिलावटी प्रसाद, मिट्टियों के सेवन से भी परेह कर रहे हैं।

मावा में ऐसे की जाती है मिलावट (Original and Fake Mawa)

आपको शायद पता नहीं होगा कि जो मावा आप खरीद रहे हैं,

उसे कुछ हल्लावाल किन चीजों को मिलाकर इसमें मिलावट करते हैं। दरअसल, इसमें कई बार मैदा, मिल्क पाउडर, सिंचड़े का आटा, सिंचिटिक मिल्क आदि चीजों डाली जाती है। ऐसे मावा खाना पेट खराब हो सकता है। पाचन शक्ति को नुकसान होता है। डायरिया, पेट दर्द, फूट पॉर्यांजिना भी हो सकती है।

असली-नकली खोया की पहचान कर सकते हैं।

(Adulteration in mawa)

1. मावा असली है या नकली इसके लिए आप एक कटोरी में

गर्म पानी डालें। उसमें थोड़ा सा आयोडीन और एक-दो चम्पन चमावा डाल दें। यदि खोया नीले रंग का नजर आए तो समझ लें कि खोये में किसी चीज की मिलावट की है।

2. जब मावा खरीदें तो फहल थोड़ा सा उंचियों पर लेकर रगड़ कर देखें। असली होगा तो दोनों चिकना होगा, नकली को खिसने पर रगड़ जैसा महसूस होगा और केमिकल जैसी संस्कृती भी आइए।

3. थोड़ा सा खोया आप आसानीयों पर लेकर छोटी गोली बनाएं। अगर मावे की गोली चिकनी और पूरी तरह से गोल न बने, टूटे लगे, उसमें दरार बने तो समझ ले कि ये खोया नकली है। इसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। मिट्टियों की दुनिया से खाने के बाद उसके लिए जब भी आप मावा खरीदें तो थोड़ा सा टेटर करके भी देखें। असली होगा तो मुंह में जाते ही खुल जाएगा। नकली हुआ तो यह मुंह में चिपकने लगता है।

4. मावा आग शुरू हुआ तो ये 24 घंटे तक ही ठीक होगा और अशुद्ध और नकली खोया 6-7 दिनों तक खराब नहीं होता है।

6. शुद्ध खोये की खुशबू से दूध की खुशबू आती है, लेकिन नकली और मिलावटी मावे से कोई भी महक, सुगंध आती महसूस नहीं होगी।

7. शुद्ध खोये की खुशबू से दूध की खुशबू आती है, लेकिन नकली और मिलावटी मावे से कोई भी महक, सुगंध आती महसूस नहीं होगी।

8. एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के मार्ग में प्रधानमंत्री की बड़ी चुनौतियां

अधिकांश विपक्षी दल एक साथ चुनाव करने के विचार को खारिज करते हैं। इनमें कांग्रेस, वामपंथी दल, तुण्डमूल कांग्रेस, थोरो और अन्य छोटी पार्टीयों शामिल हैं। वे मुख्य रूप से राजनीतिक प्रतिशोध के दूर और इस अशक्तों के कारण इसे अवश्यकर करते हैं कि इससे भाजपा को लाभ हो सकता है। इस मुख्य पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समर्पित ने राजनीतिक दलों से राय लेने के बाद सर्वसमर्पित से प्रस्ताव का समर्पन किया है। बतास दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 ने इसे अवश्यकर कर दिया।

एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार संसद और सर्वजनिक बहस की ओर बढ़ रहा है। नेतृदं मोदी संसद करने ने विष्णुपदे साहारे के पास संसद में एक विधेयक लाना के फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी सत्र में संसद में एक विधेयक लाना के फैसला किया। इस अवश्यकता के पहले भी विधेयक करते हैं कि इससे भाजपा को लाभ हो सकता है। इस मुख्य पर विचार करने के लिए अवश्यकर एक कुछी खाली छोड़ दी गई। वह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ सकती, जो उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है। सदर्भ भरत का अजुब्या में चलाया गया खड़ाऊ

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनका चम्पकदार प्रदर्शन, शिक्षितों के संगठन आप की नेता होने की सारी उपलब्धियों को खाक में मिलाते हुए इन कैबिल मोहरतमा ने अपनी बगल में यह कह कर एक कुर्सी खाली छोड़ दी गई। जब उनके गुरु व नेता अरविंद केजरीवाल की है।

तो अपनी ऊंची तालीम, दिल्ली सरकार में किया गया उनक



विविधा

देसे बुलबुलों से बचके रहना...

दीपाली एक पढ़ी-लिखी गृहिणी है, लेकिन उसकी हर समय बुराई करने की बहुत खगड़ा आदत है।

वह न माहौल देखती है, न ही समय, बस, शुरू हो जाती है। कभी उसका निशाना उसकी सासजी होती है तो कभी देवरनी या नन्हा। एक बार शुरू होने पर तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

सामने वाला टॉपिंग चेज भी करे तो थोड़ी देर बाद घूम-फिरके बह बही पहुंच जाती है। निंदापुराण उसका पसंदीदा विषय है। इसने इतना दिया, उसने उतना लिया जैसी फिजुल बातों में बह अपना समय तो बचात, करती ही है, दूसरों का भी मूढ़ चौपट कर देती है। आप नजर दौड़ाईंगी तो आसास ही कई दीपाली मिल जाएंगी आपको। कई लोग सबको केवल टेंशन ही बॉटांसे रहते हैं। कई लोगों को तो इतना भी होश नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं? वे तो बस शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों से लोग फिरकी काटते रहते हैं।

चाहे होटल का बेटर हो या बॉर्चमैन, घर के सेवक हों या आपके अधीन काम करने वाला, आपको सबसे अदब से बात करनी चाहिए, युरुन से नहीं। अखिर हर इंसान का आत्मसम्मान होता है, और आपको सबके दिल में जगह बनानी ही तो अपने अंदर बहाँ रोचक बनाड़ा।

आपकी 'बांडी लैंगेज' तो सलीकेदार हो जी, आपका लहजा भी लाजवाब होना चाहिए।

कई लोग शिकायत ही हैं भी तो नीरस आदमी से

शिकायत करने से समाधान तो शायद ही निकले, बल्कि समस्या के बढ़ने के पूरे आसार नजर आते हैं। जिससे भी परेशानी हो उसी से बात करके उसे सुलझाया जाए तो बेहतर है। कई लोग सबको केवल टेंशन ही बॉटांसे रहते हैं। आइए, कुछ इसी तरह के लोगों के बारे में जानते हैं।

दुखियारों लोग: ये लोग उदासी की चादर ओड़े, बिलकुल ठंडे किस्म के होते हैं। उनसे कोई गर्मजीसी से भी मिले तो भी उनके चेहरे पर न मुस्कराहट होती है, न उत्साह। वे किसी को हँसते हुए भी देखते हैं तो घू-घूर के, मानो वे कोई गुनाह कर रहे हैं।

व्यंयवाण चताने वाले: इन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वे एक तीर से दो निशाने साथ लेते हैं। ताना मारने में तो ये लोग निपुण होते हैं। वांछों की इकट्ठी सड़ी-गली बातें भी इनके दिमाग में तरेताजा होती हैं। मजाक की आइडियों में ये कुछ भी कह जाते हैं, चाहे सामने वाले को कितना भी दुख हो।

बहसबाज़: बात-बात में बहस करने पे उतार लोग भी तरक्की-कुरुक्क देकर

सबसे उलझते रहते हैं।

बातूनी: ऐसे लोग सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। ये लोग भी अपनी बातों का आकर्षण खो देते हैं। उनकी बातों को फिर कोई तब उन्होंने नहीं देता। इतनी बाचलता भाषा का स्तर भी गिर देती है।

अपशब्दों का प्रयोग करने वाले: बात-बात पर गालियाँ देना इनका शमल होता है। इस तरह बात करके वे यह जाताना चाहते हैं कि हमें बहुत नजदीकी रिश्त है या घनिष्ठा है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। गत भाषा इस्तेमाल करने से रिश्तों की घनिष्ठा या आत्मवित्त हर्षिंज सिद्ध नहीं होती। ध्यान रखिए आपके दिल में सामने वाले के लिए कितना ध्यान और सम्मान है, वह तो आपकी बातों से अंदंज लगाया जाएगा। आप किस तहजीब के साथ पेश आते हैं, इसी से आपके संस्कारों का पता चलता है।

स्वार्थी किस्म के लोग: ये भी हमेशा अपना मतलब पूरा करने की फिरक में होते हैं। लच्छेदार बातों का जादू चलाकर वे अपना फायदा उठा लेते हैं।

गर्हिष्य में ढूबे-ढूबे: इस किस्म के लोग भी बड़े फुर्सती होते हैं। ढूसरों की जिन्दगी में बिना किसी कारण के झांकना इनका शमल होता है। मुंह पर लच्छेदार व मौटी-मौटी बातें करने में उनका कोई सानी नहीं है। आपके पीछे ये आपका भी मजाक बना सकते हैं।

झटी शान दिखाने वाले: अपनी हैसियत को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए ऐसे लोग ज़ुठ का सहारा लेते हैं। कहाँ से कोई चीज 500 रु. की लाएंगी तो 1000 रु. की बताने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। शुरुआत में तो लोगों पर प्रभाव जमाने में ये माहिर होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे लोग उन्हें जान जाते हैं।

अकेलेपन से घट जाती है उम्र



जिंदगी के किसी भी पड़ाव में अकेलापन न केवल पीड़ादायक है बल्कि यह आपकी उम्र को भी घटा सकता है। हाल ही में हुए एक नए शोध के नीतोंजे बताते हैं कि अकेलापन साठ या इससे अधिक की उम्र के लोगों में मौत का जोखिम 10 फीसद तक बढ़ा देता है।

द आवृत्त्यम् ऑफ इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, व्यक्ति की रचनात्मकता, कार्यवृशलता और दिनभर की गतिविधियों में आपकी गिरावट को अकेलेपन के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। सैन फ्रासिस्को रिथ्य यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के मुताबिक, अकेलापन खलने से कार्य में गिरावट एवं प्रतिदिन की कार्य क्षमता में भी कमी आती है। ब्रिटेन के अखबार डेनी में ने प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर कार्नेरों पेरिसिनोटो के बावले से कहा, वृद्ध लोगों में अकेलापन एक आम समस्या है। यह स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण है, जो आगे चलकर उम्र पर भी प्रभाव डालने लगता है। इससे उम्र कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कार्नेरों ने कहा कि अकेलापन का अमुमान किसी बलीनिक में नहीं लगाया जा सकता है। वृद्ध लोगों से अकेलेपन के बारे में बातचीत करके इसके प्रमुख कारण को समझा जा सकता है, जिससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को कम किया जा सकता है। शोध के दौरान 71 साल की औसत उम्र वाले वृद्ध जनों से उनके अकेलापन के बारे में बातचीत की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि 40.8 प्रतिशत वृद्ध लोगों में अकेलेपन के कारण अन्य लोगों की तुलना में कार्यक्षमता में दोगुनी गिरावट देखी गई।

बच्चों के लिए 'फील गुड फैक्टर' दादा-दादी



बुजुर्ग जीवन को विस्तार देते हैं, गहराई देते हैं। वे आपके पास्ट का अटूट हिस्सा हैं। उन्हीं के कारण आपका वज़ूद है।

और पाल पोसकर बड़ा करने वालों को अपमानित कर क्या सिद्ध करना चाहती है आज की यह सभ्य सो कॉल्ड पढ़ी-लिखी पीढ़ी।

दादा-दादी बच्चों के जीवन में फोल गुड फैक्टर होते हैं, सुरक्षा कवच, कम्फर्ट जोर और भविष्य में उनकी उम्र पर पहुंचने पर मधुर यादों का जाहिरा।

आज के मां-बाप जब अपनी दुष्टों के चलते उनके बीच में कोई संबंध जुड़ने ही न देंगे, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होने देंगे तो बच्चों के दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन रह जाएगा क्योंकि मां-बाप अपनी जगह हीं दादा-दादी अपनी जगह।

दादा-दादी उम्र के पड़वा पर पहुंच गए होते हैं जहाँ जाकर एक ठहराव ज्यादा मैच्योरिटी और समझ आ जाती है। इसके अलावा अब वे



सैकड़ चाइल्डहूड जी रहे होते हैं। ऐसे समय में वे अपने पोते-पोती के बेहतर दोस्त साथियों से सकते हैं।

बच्चे उनसे जीवन में कितनी अच्छी बातें और संस्कार सीखते हैं जो उनके व्यक्तित्व में गहराई तक उत्तर कर उन्हें भविष्य में बेहतर इंसान बनाते हैं यह सिर्फ समझने की बात है। बच्चे अपने मां-बाप को उनके मां-बाप की इजाजत करते, केर देखते हैं तो स्वतः ही ये बातें उनके संस्कारों में आ जाती हैं। भले ही आप अपने मां-बाप से दूर रहते हों, बच्चों को उनसे जोड़ कर रखें, उन्हें रैपरूटर टच में रखें, फोन, विजिट या पत्र ई-मेल के द्वारा ही नहीं होती। बच्चे की नज़रकात पहचान कर दादा-दादी भी अपने को समयानुसार ढाल लें तो अच्छा है। उन्हें दखलांडाजी से दूर रहना चाहिए और बिना मांगे सलाह देने से बचना चाहिए। जब तक कि बात सीरीज़ अंजाम की ही न हो। अब वे

बुजुर्ग जीवन को विस्तार देते हैं और गहराई देते हैं। वे आपके पास्ट का अटूट हिस्सा हैं। उन्हीं के कारण आपका वज़ूद है। आप जो सांस में ले रहे हैं ये उनकी ही देन हैं। उनके साथ जीवन मूल्य है। आज के आपाधारी और तनावग्रस्त माहौल में उनके पास शीतल छाया है। संतुलन है और अपाके लिए रिंगर्यारेंस इसीलिए शायद आज दुनिया में कई जगह दादा-दादी गोद लिए जाने लाए हैं।

अपने बच्चों को जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दादा-दादी के प्यार से चर्चित न रखें। उनको लेकर अपने पोजीसिसनैस के लिए स्वयं दादा-दादी बनने पर कहीं अपने प्रति इसी तरह के व्यवहार को पाकर बाद में आपको पछताना न पड़े।

शादी का बंधन है जरूरी

बाद रागिनी का अपनी बचपन की सहेली रेशमी के घर जाना हुआ। उसने वहाँ देखा कि किस तरह रेशमी का पति देवेश उसकी छोटी-छोटी जीवों का ध्यान रखता है। वह अपने से ज्यादा रेशमी की फिरक करता है। इन सभी बातों के कारण अंततः राग

परिणीति चौपड़ा

राघव चहू की शादी को पूरा हुआ 1
साल, शेयर की रोमांटिक फोटोज,
जाने कहां मनाई एनिवर्सरी



बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चौपड़ा ने पिछले साल राजनेता राघव चहू से उदयपुर में धूमधाम से शादी की थी। कपल की शादी को एक साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर कपल ने विदेश में एनिवर्सरी मनाई थी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर फैंस को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की झलक दिखाई। परिणीति ने इंस्टाग्राम पर मालदीव में राघव के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह के जश्न की कई तस्वीरें शेयर की। फोटोज में कपल मालदीव में समुद्र के किनारे कुर्सियों पर आराम करते हुए और सनसेट एंजॉय करते दिख रहे हैं। इन फोटोज के साथ परिणीति चौपड़ा ने पाति राघव के लिए एक दिल हूँ जाने वाला पोस्ट भी शेयर किया है।

पति के लिए लिखा खास पोस्ट
पोस्ट के कैषण में परिणीति ने लिखा, 'कल हम दोनों ने सिर्फ एक-दूसरे के साथ समय बिताया। लेकिन हमने आप सभी की हर शुभकामनाओं और संदेश को पढ़ा और हम दिल से आभारी हैं। राघव मुझे नहीं पता कि मैंने अपने पिछले जम्म और इस जम्म में ऐसा क्या किया कि आप मेरे पति हैं। हमारे देश के प्रति आपका समर्पण और प्रतिबद्धता मुझे बहुत प्रेरित करता है। मैं आपसे बहुत ध्यान करती हूँ, हम पहले क्यों नहीं मिले?

सालगिरह मुवारक राघव, हम दोनों एक हैं।'

राघव ने भी सालगिरह की बधाई देते हुए एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया। वह अपने पोस्ट में लिखते हैं, 'एक साल हो गया? ऐसा लगता है जैसे कल ही हमने एक-दूसरे से शादी की हो। काश हम पहले मिले होते, तुमने हर दिन को इतना खास बना दिया है, चाहे घर पर बिताए शांत पल हों या दुनिया भर की बड़ी-बड़ी रोमांचक यात्राएं, तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हो। इस साल को इतना यादगार बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मैं यह देखने के लिए बेताब हूँ कि ध्वनियां में हमारे लिए बत्ता होगा, 'हैंपी एनिवर्सरी' माय लव।'



नत्या नवेली नंदा की इस हरकत पर बौखलाए ऐश्वर्या राय के फैंस, सुना रहे हैं खरीखोटी

अमिताभ बच्चन का लाडली नत्या नवेली नंदा बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन खबरों में वह हमेशा बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर नत्या नवेली की फैंड लिस्ट में कई सेलेब्रिटीज के नाम हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर दिया, जो उनकी मामी यारी ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस को बिलकुल भी रास नहीं आया। बस इधर ट्रोल्स को मौका मिला और उधर उन्होंने नत्या को खरीखोटी सुनानी शुरू कर दी। ये पूरा मामला अलिया भट्ट की एक पोस्ट के बाद शुरू हुआ। पेरिस फैशन वीक 2024 की कुछ तस्वीरों को आलिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इन तस्वीरों में अलिया रैम्प पर बॉक करते वक्त फ्लाइंग किस देती नजर आ रही हैं।

अलिया की पोस्ट से जुड़ा है मामला
अलिया की पोस्ट को देख फैंस ही नहीं उनकी मां सोनी राजदान, सासू मां नीतू, कपूर, ननद रिंदिमा कपूर साहनी सहित कई लोगों ने तारीफ की। लेकिन लोगों की नियाँ सिर्फ नत्या नवेली का कॉमेंट पर टिक गई। उनका ऐश्वर्या राय को छोड़ आलिया का सपोर्ट करना लोगों को बिलकुल भी पसंद नहीं आया।

अलिया की पोस्ट पर नत्या ने कथा लिखा




दरअसल, नत्या ने अलिया के पोस्ट पर कॉमेंट कर उहें चीयरअप किया। उन्होंने कॉमेंट में कुछ लिखा नहीं बस दो इमोजी शेयर किए, जिसको देख ट्रोल्स खूब लागे और उन्होंने नत्या को खरीखोटी सुनानी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा- 'ऐश्वर्या की सपोर्ट हो गया हो तो थोड़ी मामी को भी चेयरअप कर दो।' एक अन्य यूजर ने लिखा- 'ऐश्वर्या राय की तरीफ इनसे नहीं होगी, क्योंकि नामी-ममी ने मान किया होगा। एक अन्य ने लिखा- 'छोड़ सोर्ट अपनी मामी को भी कर लो बहन।'

ऐश्वर्या-अलिया ने पेरिस में दिखाया फैशन का जलवा

आपको बता दें कि 'पेरिस फैशन वीक 2024' में अलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ने रैम्प वॉक किया था। ऐश्वर्या का जहां ग्रेसफूल अवतार फिर दिखा, वहीं अलिया हमेशा की तरह क्लूट लुक में दिखी। ऐश्वर्या ने रेड सैटिन बल्टुन मैक्सी ड्रेस कीरी की थी। इसमें एक बड़ी टेल भी जड़ी हुई थी। वर्षी, अलिया भट्ट के इसेंट में पहली बार देखने के लिए लोग एक्साइटेड दिखे। आलिया काफी स्टाइलिश अंदाज में दिखी। उन्होंने मैटेलिक सिल्वर बस्टियर पहने नजर आए, जिसे उन्होंने ब्लैक ऑफ-शोल्डर जंप सूट के साथ पेयर किया था।

आमिर खान के भाई YouTube पर वीडियो बनाने को मजबूर, बोले- फिल्म छोड़ दी, पैसा रिटर्न कर दिया



आमिर खान छोटे भाई फैसल खान एक बार फिर चर्चा में हैं। फैसल बता रात पैपरजी के कैमरों में कैद हुए। इस दौरान उन्होंने पैपरजी से बातें भी की। 58 साल के फैसल ने कहा कि उन्होंने कुछ बक यह एक फिल्म साइन की थी, लेकिन उस फिल्म को छोड़ दिया है। दरअसल फैसल ने कुछ बक पहले इंस्टाग्राम पर बताया था कि उन्होंने एक फिल्म साइन की है, पर अब उन्होंने उसे छोड़ने की जानकारी दी दी है। फैसल खान भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो बंदर को दिखाते नजर आए थे। अब उन्होंने बताया है कि फिल्मों से दूर होकर वो क्या करने का लकान कर रहे हैं।

यूट्यूब पर बनाए गए वीडियो

इंस्टर्ट बॉलीवुड ने फैसल खान का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पैपरजी जब उनसे उनकी आने वाली फिल्म के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं, नहीं, फिल्महाल तो कोई साइन नहीं किया है। जब उनसे इंस्टाग्राम पर शेयर किये गए पोस्ट के बारे में पूछते हैं तो उन्होंने कहा, कुछ साइन किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। पैसा वापस कर दिया और छोड़ दिया। अभी यूट्यूब पर कुछ मैं कर रहा हूँ, उसकी लाइनिंग कर रहा हूँ।

डेढ़ साल की उम्र में किया था डेब्यू

आपको ये बता जानकार शायद होगी कि फैसल खान ने महज डेढ़ साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था। फैसल फिल्म 'चार का मौसम' में नजर आए थे, उन्होंने इस फिल्म से अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। तुम बिन जांक कहाँ गाने में नहीं फैसल भर भूषण के साथ दिखावाई दे रहे हैं। फैसल ने आमिर खान की फिल्म क्यानात से क्यानात तक और जो जीता वही सिकंदर में भी काम किया। हालांकि इन फिल्मों में उनका रोल काफी छोटा था। साल 2000 में आई फिल्म मेला था। हालांकि उनका करियर कुछ खास नहीं रहा।

Bigg Boss 18 में आएंगी Mahesh Babu की साली? क्या कर पाएंगी इंडस्ट्री में कमवैक



टीवी रियलिटी शो 'बिंग बॉस 18' इस बार 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जिसे सलमान खान होस्ट करेंगे। शो को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। इस बार 'बिंग बॉस' में 18 कोर्टेस्टेंट्स एंट्री करने वाले हैं, इनमें से कुछ के नाम कन्फर्म हो गए हैं, वहीं कुछ के साथ अभी बात की जा रही है। इन्हीं में से एक नाम साथ किल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की साली और पूर्व अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर का भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा भी 'बिंग बॉस 18' में नजर आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पा को रियलिटी शो के लिए चुन लिया गया। हालांकि उन्होंने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शिल्पा शिरोडकर ने साल 2000 तक एक्सप्रेस में काम किया और फिर एक्विटेंग से दूरी बना ली थी। इसके बाद शिल्पा ने 13 साल बाद यानी 2013 में इंडस्ट्री में कमवैक किया था। कमवैक के बाद शिल्पा इंडस्ट्री में ज्यादा



कुछ कर नहीं पाए हैं, ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक अपने करियर को बूस्ट करने के लिए शिल्पा ये शो कर सकती है।

किस फिल्म से किया था डेब्यू?

शिल्पा महेश बाबू की पांची और फैमस एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर की बहन हैं। शिल्पा और नम्रता ने बॉलीवुड की दुनिया में एक साथ कम रखा था। शिल्पा शिरोडकर ने 1989 में रमेश सिंही की फिल्म 'भाष्टाचार' से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में उन्होंने एक अंधी लड़की का रोल किया था। इसके बाद शिल्पा ने अपने करियर में 'खुदा गजह', 'मृत्युरंड', 'बेवफा सनम', 'गोपी किलान' और 'आंखें' जैसी कई हिंट फिल्में दी। फिल्मों के अलावा, शिल्पा कई टेलीविजन शो का भी हिस्सा रही हैं। शिल्पा अपनी बहन नम्रता शिरोडकर और अपने जीजा महेश बाबू के भी बेटे कीरती हैं। इसके बाद उन्होंने यूके बेस्ट बैंकर अप्रेस रंजिट से शादी कर ली। दोनों को एक बेटी है। शिल्पा अपनी बहन नम्रता शिरोडकर और अपने जीजा महेश बाबू के भी बेटे कीरती हैं। इसके बाद उन्होंने यूके बेस्ट बैंकर अप्र